



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 62]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 16, 2012/माघ 27, 1933

No. 62]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 16, 2012/MAGHA 27, 1933

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2012

सा.का.नि. 88(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रशिक्षण निदेशालय (सिवाए महिला वृत्तिक प्रशिक्षण) रोजगार और प्रशिक्षण निदेशालय समूह “ग” गैर-तकनीकी पद भर्ती नियम, 2006 को, जहां तक उनका संबंध रोजगार और प्रशिक्षण निदेशालय में पदों से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन रोजगार और प्रशिक्षण निदेशालय में अवर श्रेणी लिपिक/ टंकक, उच्च श्रेणी लिपिक/रोकड़िया / सहायक छात्रावास अधीक्षक, लेखापाल/ आंतरिक लेखा परीक्षक/ छात्रावास अधीक्षक/ केयरटेकर/ क्रय सहायक, गेस्टेटरन आपरेटर और भेषजज्ञ/ कंपाउन्डर के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रशिक्षण निदेशालय (सिवाए महिला वृत्तिक प्रशिक्षण) रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय समूह “ग” गैर-तकनीकी पद भर्ती नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना:-- ये नियम निम्नलिखित इकाईयों के संबंध में इकाईवार लागू होंगे, अर्थात् :-

(i) चेन्नई इकाई, जिसमें उन्नत प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नई ; केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान चेन्नई ; प्रादेशिक प्रशिक्षण निदेशालय, चेन्नई और मॉडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कालीकट समाविष्ट हैं ;

(ii) हैदराबाद इकाई, जिसमें उन्नत प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद ; प्रादेशिक प्रशिक्षण निदेशालय, हैदराबाद और इलैक्ट्रॉनिक और प्रसंस्करण उपकरण उन्नत प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद समाविष्ट हैं ;

(iii) बंगलौर इकाई, जिसमें फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर और अपैक्स हाईटेक संस्थान, बंगलौर समाविष्ट हैं ;

(iv) मुंबई इकाई, जिसमें उन्नत प्रशिक्षण संस्थान, मुंबई ; प्रादेशिक प्रशिक्षु प्रशिक्षण निदेशालय, मुंबई समाविष्ट हैं ;

(v) लुधियाना इकाई, जिसमें उन्नत प्रशिक्षण संस्थान, लुधियाना ; प्रादेशिक प्रशिक्षु प्रशिक्षण निदेशालय, फरीदाबाद और मॉडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हलद्वानी समाविष्ट हैं ;

(vi) कानपुर इकाई, जिसमें उन्नत प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर ; प्रादेशिक प्रशिक्षु प्रशिक्षण निदेशालय, कानपुर, इलैक्ट्रॉनिक और प्रसंस्करण उपकरण उन्नत प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून और मॉडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जोधपुर समाविष्ट हैं ;

(vii) कोलकाता इकाई, जिसमें उन्नत प्रशिक्षण संस्थान, हावड़ा ; केन्द्रीय स्टाफ प्रशिक्षण और अनुसंधान, कोलकाता ; प्रादेशिक प्रशिक्षु प्रशिक्षण निदेशालय, कोलकाता और मॉडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चौदवार (उडीसा) समाविष्ट हैं ;

(viii) जमशेदपुर इकाई जिसमें फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान, जमशेदपुर समाविष्ट हैं ।

(viii) जमशेदपुर इकाई जिसमें फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान, जमशेदपुर समाविष्ट हैं ।

3. पदों की संख्या वर्गीकरण और वेतनमान.— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होंगे, जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि . उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निरर्हता:— वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति :— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति :— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. अवर श्रेणी लिपिक/टंकक	126* (2012) इकाईवार विवरण	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	5200-20,200 (वेतन बैंड - 1) धन 1900 रु ग्रेड वेतन	अचयन	लागू नहीं होता।
	तथापि	पदों की संख्या			
	हैदराबाद	17			
	लुधियाना	15			
	मुंबई	16			
	कानपुर	19			
	चेन्नई	23			
	कोलकाता	28			
	बंगलौर	06			
	जमशेदपुर	02			
	* कार्यभार के आधार पर परितर्जन किया जा सकता है।				

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत या स्थानांतरित व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिचीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)	(10)
18 से 27 वर्ष। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह तारीख होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाए।	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य अर्हता। (ii) मैन्युअल टंकण मशीन पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति। या कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट (35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट के तत्समान प्रत्येक शब्द के लिए 5 की-स्ट्रोकेशन की औसत पर 10500 केडीपीएच/ 9000 केडीपीएच) कौशल परीक्षण केवल कंप्यूटर पर होगा।	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

(11)

प्रोन्नति :

(i) 50% विभागीय अर्हता परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(ii) 50% कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	(12)	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)	(14)	(14)
प्रोन्नति : 5200-20,200 रु + ग्रेड वेतन 1800 रु के वेतनमान में, ऐसा बहु-कार्यबल, जिसने उस इकाई में, उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि और प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे - 1. इकाई का ज्येष्ठतम निदेशक - अध्यक्ष 2. रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के किसी कार्यालय की स्थापना संबंधी मामलों से संबंधित इकाई का एक समूह 'क' अधिकारी - सदस्य 3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय से एक समूह 'क' अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. उच्च श्रेणी लिपिक/रोकड़िया/सहायक छात्रावास अधीक्षक (ये पद अंतःपरिवर्तनीय हैं)	94* (2012) इकाईवार विवरण संस्थान हैदराबाद लुधियाना मुंबई कानपुर चेन्नई कोलकाता बंगलौर जमशेदपुर	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसूचिवीय पदों की संख्या 15 13 12 14 13 20 06 01	5200-20,200 रु (वेतन बैंड - 1) + 2400 रु ग्रेड वेतन	अवयव	लागू नहीं होता।

	* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।				
(7)		(8)	(9)	(10)	
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	
(11)	(12)	(13)	(14)		
शतमंशत प्रोन्नति द्वारा, जिसका न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रोन्नति : ऐसा अवर श्रेणी लिपिक/ टंकक जिसने उस श्रेणी में 8 वर्ष की नियमित सेवा की हो। प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी : (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हैं, या (ii) जो अवर श्रेणी लिपिक का पद धारण कर रहे हैं और जिन्होंने उस श्रेणी में 8 वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण -पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. इकाई का ज्येष्ठतम निदेशक - अध्यक्ष 2. रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के किसी कार्यालय की स्थापना संबंधी मामलों से संबंधित इकाई का एक समूह 'क' अधिकारी - सदस्य 3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय से एक समूह 'क' अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता।		

	इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि हे साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)	
--	--	--

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	28* (2012) इकाईवार विवरण	पदों की संख्या				
3 1-पुल/आंतरिक लेखा परीक्षक/ केयरटेकर/ छात्रावास अधीक्षक/क्रय सहायक (ये पद अंतःपरिवर्तनीय हैं)	संस्थान		साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	5200-20,200 (वेतन बैंड - 1) + ग्रेड वेतन 2800 रु	अचयन	लागू नहीं होता ।
	लुधियाना हैदराबाद मुंबई कानपुर चेन्नई कोलकाता बंगलौर	02 06 02 05 05 05 03				
	* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।					

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

(11)	(12)	(13)	(14)
<p>प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।</p>	<p>प्रोन्नति : ऐसा उच्च श्रेणी लिपिक/ रोकड़िया/सहायक छात्रावास अधीक्षक जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो ।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :</p> <p>(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ; या</p> <p>(ii) जो उच्च श्रेणी लिपिक का पद धारण किए हुए हैं और जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो ;</p> <p>(iii) जो प्रशासन, रोकड़ और लेखा में अनुभव रखता हो ।</p> <p>टिप्पण 1-पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।</p> <p>(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति रमिते जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. इकाई का ज्येष्ठतम निदेशक - अध्यक्ष 2. रोजगार और प्रशिक्षण महाविद्यालय के किसी कार्यालय की स्थापना संबंधी मामलों से संबंधित इकाई का एक समूह 'क' अधिकारी - सदस्य 3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय से एक समूह 'क' अधिकारी - सदस्य 	<p>लागू नहीं होता ।</p>

	सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. गैस्टेटर ऑपरेटर	06* (2012) इकाईवार विवरण	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसूचित	5200-20,200 रु (वेतन बैंड -1) + ग्रेड वेतन 1900 रु	अचयन	लागू नहीं होता।
	संस्थान	पदों की संख्या			
	हैदराबाद	02			
	कोलकाता	01			
	बंगलौर	01			
	कानपुर	01			
	मुंबई	01			
	* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।				

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य अर्हता। 2. गैस्टेटर मशीन के प्रचालन और रख-रखाव में प्रवीणता।	नहीं	लागू नहीं होता।

(11)	(12)	(13)	(14)
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	<p><u>प्रोन्नति :</u> 5200-20,200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु के वेतनमान में, ऐसा बहु-कार्य कर्मचारी वर्ग जिसने उस इकाई में उस श्रेणी में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगी :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. इकाई का ज्येष्ठतम निदेशक - अध्यक्ष 2. रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के किसी कार्यालय की स्थापना संबंधी मामलों से संबंधित इकाई का एक समूह 'क' अधिकारी - सदस्य 3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय से एक समूह 'क' अधिकारी - सदस्य 	लागू नहीं होता।

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
5. भेद्यज/कंपाउण्डर	12* (2012)		साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसूचित	5200-20,200 रु (वेतन बैंड -1) + ग्रेड वेतन 2800/- रु	अचयन	लागू नहीं होता।
	इकाईवार विवरण					
	संस्थान	पदों की संख्या				
	हैदराबाद	02				
	लुधियाना	01				
	मुंबई	01				
	कानपुर	01				
	चेन्नई	03				
कोलकाता	03					
बंगलौर	01					
* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।						

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>18 से 27 वर्ष</p> <p>(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष की आयु तक की जा सकती है।)</p> <p>टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, केन्द्र शासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p> <p>टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>	<p>1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य ;</p> <p>2. बी. फार्म या रसायन विज्ञान विषय के साथ बी.एससी या अर्हता प्राप्त और रजिस्ट्रीकृत कम्पाउंडर (भेषजज्ञ) ;</p> <p>3. किसी मेडिकल स्टोर या औषधालय या अस्पताल में, 2 वर्ष का भेषज अनुभव।</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>	<p>सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष।</p>
(11)	(12)	(13)	(14)
<p>सीधी भर्ती।</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रान्ति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. इकाई का ज्येष्ठतम निदेशक - अध्यक्ष 2. रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के किसी कार्यालय की स्थापना संबंधी मामलों से संबंधित इकाई का एक समूह 'क' अधिकारी - सदस्य 3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय से एक समूह 'क' अधिकारी - सदस्य 	<p>लागू नहीं होता।</p>

[सं. डीजीईटी-ए-12018/08/2010-टीए-II]

एन. श्रीकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
(Directorate General of Employment and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2012

G.S.R 88(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Directorate of Training (except Women Occupational Training), Directorate General of Employment and Training Group 'C' Non-Technical Posts Recruitment Rules, 2006, in so far as they relate to the posts in the Directorate General of Employment and Training, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Lower Division Clerk/Typist, Upper Division Clerk/Cashier/Assistant Hostel Superintendent, Accountant/ Internal Auditor/ Hostel Superintendent/ Care Taker/ Purchase Assistant, Gestetner Operator and Pharmacist/Compounder in the Directorate General of Employment and Training in the Ministry of Labour and Employment, namely:-

1. (1) **Short title and commencement.** - These rules may be called the Directorate of Training (except Women Occupational Training) Directorate General of Employment and Training, Group 'C' Non-Technical Posts Recruitment Rules, 2012.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Application.** - These rules shall be applicable on unit-wise in respect of the following units, namely :-
 - (i) Chennai Unit comprising Advanced Training Institute, Chennai; Central Training Institute, Chennai; Regional Directorate of Apprenticeship Training, Chennai and Model Industrial Training Institute, Calicut;
 - (ii) Hyderabad Unit comprising Advanced Training Institute, Hyderabad; Regional Directorate of Apprenticeship Training, Hyderabad and Advanced Training Institute for Electronic and Process Instrumentation, Hyderabad;
 - (iii) Bangalore Unit comprising Foremen Training Institute, Bangalore and Apex Hi-Tech. Institute, Bangalore;
 - (iv) Mumbai Unit comprising Advanced Training Institute, Mumbai and Regional Directorate of Apprenticeship Training, Mumbai;
 - (v) Ludhiana Unit comprising Advanced Training Institute, Ludhiana; Regional Directorate of Apprenticeship Training, Faridabad and Model Industrial Training Institute, Haldwani;
 - (vi) Kanpur Unit comprising Advanced Training Institute, Kanpur; Regional Directorate of Apprenticeship Training, Kanpur; Advanced Training Institute for Electronics and Process Instrumentation Dehradun; and Model Industrial Training Institute, Jodhpur;

(vii) Kolkata Unit Comprising Advanced Training Institute, Howrah; Central Staff Training and Research Institute, Kolkata; Regional Directorate of Apprenticeship Training, Kolkata; and Model Industrial Training Institute, Chowdwar (Orissa).

(viii) Jamshedpur Unit comprising Foremen Training Institute, Jamshedpur.

3. **Number of Posts, Classification and Scale of Pay.** - The number of said posts, their classification and scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.** - The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.
5. **Disqualification.** - No person,-
 - (i) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (ii) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

6. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, or reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
7. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

• 502 4/12-4

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay	Whether selection post or non-selection post																		
1	2	3	4	5																		
1. Lower Division Clerk/Typist	126*(2012)	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial	Rs. 5200-20,200/- (PB -1)+ Grade Pay Rs. 1900/-	Non-selection																		
	Unit-wise break up																					
	<table><tr><td>Institute</td><td>Number of posts</td></tr><tr><td>Hyderabad</td><td>17</td></tr><tr><td>Ludhiana</td><td>15</td></tr><tr><td>Mumbai</td><td>16</td></tr><tr><td>Kanpur</td><td>19</td></tr><tr><td>Chennai</td><td>23</td></tr><tr><td>Kolkata</td><td>28</td></tr><tr><td>Bangalore</td><td>06</td></tr><tr><td>Jamshedpur</td><td>02</td></tr></table>				Institute	Number of posts	Hyderabad	17	Ludhiana	15	Mumbai	16	Kanpur	19	Chennai	23	Kolkata	28	Bangalore	06	Jamshedpur	02
	Institute				Number of posts																	
	Hyderabad				17																	
	Ludhiana				15																	
	Mumbai				16																	
	Kanpur				19																	
	Chennai				23																	
	Kolkata				28																	
Bangalore	06																					
Jamshedpur	02																					
* Subject to variation dependent on workload.																						
Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.																						
Age limit for direct recruits.																						
Educational and other qualifications required for direct recruits.																						
6	7	8																				
Not applicable	18 to 27 years (relaxation for Government servant upto 40 years in accordance with the instructions issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be fixed by the Staff Selection Commission.	1. Class 12th pass or equivalent qualification from a recognised Board or University. 2. A typing speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi on manual typewriter. or A typing speed of 35 w.p.m in English or 30 w.p.m in Hindi																				

		on computer. (35 w.p.m and 30 w.p.m correspond to 10500 KDPH/9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word). The Skill Test norms only on computer.
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotion or transfer.	Period of probation, if any	Method of recruitment and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
9	10	11
Not applicable	Two years for direct recruits	(i) 50% by Promotion on the basis of a Departmental Qualifying Examination failing which by direct recruitment. (ii) 50% by direct recruitment through Staff Selection Commission.
In case of recruitment by promotion or transfer or transfer on deputation grades from which promotion or transfer or transfer on deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted.
12	13	14
Promotion: Multi Tasking Staff in the pay scale Rs. 5200-20,200 Grade Pay Rs. 1800 with three years regular service in the grade in the unit.	Group 'C' Departmental Promotion Committee for (considering confirmation and promotion) consisting of: 1. Senior most Director in the Unit. -Chairman 2. A Group 'A' officer from any office of Directorate General of Employment and Training in the unit dealing with establishment matter. -Member 3. A Group 'A' officer of another Central Government office. -Member	Not applicable

502 9/12-5

<p>officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (period of deputation including the period of deputation in another cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application).</p>		
--	--	--

<p>consideration for appointment on deputation Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion (period of deputation including the period of deputation in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application).</p>		
--	--	--

502 9 0712-6

1	2	3	4	5												
4. Gestetner Operator	06*(2012) Unit -wise break up <table><tr><th>Institute</th><th>Number of posts</th></tr><tr><td>Hyderabad</td><td>02</td></tr><tr><td>Kolkata</td><td>01</td></tr><tr><td>Bangalore</td><td>01</td></tr><tr><td>Kanpur</td><td>01</td></tr><tr><td>Mumbai</td><td>01</td></tr></table> *Subject to variation dependent on workload.	Institute	Number of posts	Hyderabad	02	Kolkata	01	Bangalore	01	Kanpur	01	Mumbai	01	General Central Service Group 'C' Technical, Non-Gazetted, Non – Ministerial	Rs. 5200-20,200/- (PB -1) + Grade Pay Rs. 1900/-	Non-selection
Institute	Number of posts															
Hyderabad	02															
Kolkata	01															
Bangalore	01															
Kanpur	01															
Mumbai	01															
6	7	8														
Not applicable	Not applicable	1. Class 10th pass or equivalent qualification from a recognised Board or University. 2. Proficiency in operating and maintaining Gestetner Machine.														
9	10	11														
No	Not applicable	By promotion failing which by deputation														
12	13	14														
Promotion: Multi Tasking Staff in the pay scale Rs. 5200-20,200/- + Grade Pay Rs. 1800 with three years regular service in the grade in the unit.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of: 1. Senior most Director in the Unit. -Chairman 2. A Group 'A' officer from any office of Directorate General of Employment and Training in the unit dealing with establishment matter. -Member 3. A Group 'A' officer of another Central Government office. -Member	Not applicable														

1	2	3	4	5																
5. Pharmacist / Compounder	12*(2011) Unit -wise break up <table><tr><th>Institute</th><th>Number of posts</th></tr><tr><td>Hyderabad</td><td>02</td></tr><tr><td>Ludhiana</td><td>01</td></tr><tr><td>Mumbai</td><td>01</td></tr><tr><td>Kanpur</td><td>01</td></tr><tr><td>Chennai</td><td>03</td></tr><tr><td>Kolkata</td><td>03</td></tr><tr><td>Bangalore</td><td>01</td></tr></table> *Subject to variation dependent on workload.	Institute	Number of posts	Hyderabad	02	Ludhiana	01	Mumbai	01	Kanpur	01	Chennai	03	Kolkata	03	Bangalore	01	General Central Service Group 'C' Technical, Non-Gazetted, Non – Ministerial	Rs. 5200-20,200/- (PB -1) + Grade Pay Rs. 2800/-	Non-selection
Institute	Number of posts																			
Hyderabad	02																			
Ludhiana	01																			
Mumbai	01																			
Kanpur	01																			
Chennai	03																			
Kolkata	03																			
Bangalore	01																			
6	7	8																		
Not applicable	18 to 27 years (relaxable for Government servants up to the age of 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidate in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Island or the Union Territory of Lakshadweep) Note 2: The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	1. Class 12 th pass or equivalent from a recognised Board or university; 2. B. Pharma or B.Sc. with Chemistry as one of the subjects or qualified and registered Compounder (Pharmacist); 3. Two years experience in Pharmacy / Medical stores in a Dispensary/ Hospital																		
9	10	11																		
Not applicable	Two years for direct recruits	Direct recruitment																		
12	13	14																		
Not applicable	Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation, consisting of: 1. Senior most Director in the Unit. <div>-Chairman</div> 2. A Group 'A' officer from any office of Directorate General of Employment and Training in the unit dealing with establishment matter. <div>-Member</div> 3. A Group 'A' officer of another Central Government office. <div>-Member</div>	Not applicable																		

[No. DGET-A-12018/0B/2010-TA-II]

N SREEKUMAR, Under Secy